



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## 15,000/- रुपये का इनामिया गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक -02.03.2023

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही एवम् वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक “दक्षिणी” के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महोली के नेतृत्व में थाना इ0सु0पुर पुलिस टीम द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/23 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 15,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद वसीम निवासी हाल पता ग्राम मिश्रीपुर कुर्सी रोड थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ व मूल पता मोहल्ला नयागांव लाइपार आजादनगर हरथला थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त शांतिर अपराधी हैं, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी चोरी/नकबजनी जैसे आपराधिक कृत्यों के संबंध में कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त करीब दो माह से वांछित चल रहा था, जिसकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त पर 15,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद वसीम निवासी हाल पता ग्राम मिश्रीपुर कुर्सी रोड थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ व मूल पता मोहल्ला नयागांव लाइपार आजादनगर हरथला थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

### पंजीकृत अभियोग:-

- मु0अ0सं0 01/23 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना महोली सीतापुर।

## पुलिस टीम थाना इ०सु०पुर -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष सिंह
2. उ०नि० श्री बाबू खां
3. का० अश्वनी त्यागी
4. का० नितिन कुमार

## अपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहम्मद नईम उपरोक्त -

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	282/22	380/411 भादवि	महोली	सीतापुर
2	283/22	457/380/411भादवि	महोली	सीतापुर
3	308/22	380/411 भादवि	महोली	सीतापुर
4	321/22	457/380/411भादवि	महोली	सीतापुर
5	01/23	2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट	महोली	सीतापुर

